



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937

No. 57]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/MAGHA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सा.का.नि.101(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. भर्ती की पद्धति -- (1) रिक्ति का परिचालन खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा और आवेदकों से, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के माध्यम से पूर्ण आवेदन भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश, जिसे अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ;

(ग) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ;

(घ) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।

(3) समिति की बैठक की गणपूर्ति, चयन समिति के किन्हीं तीन सदस्यों, जिसके अंतर्गत समिति का अध्यक्ष भी है, से होगी ।

(4) चयन समिति, अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी ।

(5) चयन समिति, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूर्विकता के क्रम में तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

4. चिकित्सक दृष्टया योग्यता – किसी भी व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्ति नहीं की जाएगी, जब तक उसे उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता है ।

[फा. सं. ए. 50050/20/2015- प्रशा. I ग (सीस्टेट)]

एस. भौमिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2016

G.S.R. 101(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 129, read with sub-section (1) of section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure for Appointment as President) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) “President” means the President of Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal;

(c) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Method of recruitment.**— (1) Vacancy shall be circulated through open advertisement and applicants shall be asked to forward complete application through Registrars of High Court or Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, as the case may be.

(2) For the purpose of appointment to the post of President, there shall be a Selection Committee consisting of the following Members, namely:-

(a) the Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India as Chairman;

(b) the Secretary to the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue;

(c) the Secretary to the Government of India, in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs;

(d) the Secretary to the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training.

(3) Any three members of the Selection Committee including the Chairman shall form a quorum for the meeting of the committee.

(4) The Selection Committee may devise its own procedure for selection and appointment of the President.

(5) The Selection Committee shall recommend a panel of three names in order of priority for appointment of President.

4. **Medical fitness.-** No person shall be appointed as a President unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose.

[F. No. A. 50050/20/2015-Ad.1C (CESTAT)]

S. BHOWMICK, Under Secy.